Minda Industries Ltd.

Corporate Office



Ref.No: Z-IV/R-39/D-2/174 & 207

Date : 11/01/2017

BSE Ltd. Regd. Office: Floor - 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001.	National Stock Exchange of India Ltd. Listing Deptt., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.
BSE Script: 532539	NSE Script: MINDAIND

Dear Sirs,

Sub: - Publication of Results of Postal Ballot Voting

This is in continuation of our letter dated 10/11/2016, 08/12/2016, 12/12/2016 and 09/01/2017, we are enclosing herewith newspapers cuttings, wherein the Results of Postal Ballot Voting (declared on 9 January, 2017) was published in the newspapers on 10 January, 2017 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers.

This is for your information and records please.

DELHI

Thanking you,

Yours faithfully,

For MINDA INDUSTRIES LTD

H.C. DHAMIJA

V.P. Group Accounts, Legal, Secretarial

Indirect Taxes & Co. Secretary

Encl: As above.

Land acquisition for SEZs: SC seeks reply from Centre, 7 states

fe Bureau New Delhi, Jan 9

HE Supreme Court on Monday sought response from the Centre and seven states on a PIL seeking compensation and return of the unused land, which was acquired for setting up Special Economic Zones (SEZs), to farmers. It has also sought a CBI probe into all the alleged instances of "misuse" of SEZ land for other use including real rates have either taken heavy

Welfare Associations, an NGO, claimed that between 2010 and 2015, several state governments had notified a total of 4842.38 hectare of land as SEZ land, and out of that the companies have utilised only 362.25 hectare for SEZ.

New Delhi, Jan 9: The gov-

with clarifications on the sale

of medicines online, acced-

ANNUAL GUJARAT

A RED initiative appears

initiative of the marketing

Indian Express Group and

contains content paid for

magazine should be read

in today's edition of

This magazine is an

by advertisers. The

as an advertisement.

The Financial Express.

solutions team of The

e-pharmacy business.

REVIEW

fe Bureau

The bench led by chief justiceJSKheharaskedtheministry of commerce and industry and the seven states -Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Punjab and West Bengal—to file their reply in four weeks to the plea raised by the NGO.

While stating that the land was acquired for setting up SEZs by the states, it said that most of the land is lying unused and even some corpoloans from banks or have di-SEZ Farmers Protection verted the land to other uses like real estate.

Quoting a government committee on land reforms, it said that more than 2.1 million hactare of agricultural land has been transferred for non-agricultural purposes during 1990-2003, the NGO said.

"The ministry of health is

working on clarifications on

this issue," commerce and in-

Sitharaman said on Monday.

The Drugs and Cosmetics

ution and sale of drugs and

cosmetics in the country

— doesn't explicitly disal-

low the sale of medicines

online with a valid pre-

scription, although more

clarity is required on this

issue, some analysts have

recent months, have come

under attack from off-line

chemist stores that allege

that the former are violat-

ing foreign direct invest-

ment (FDI) rules by offer-

ing discounts.

ernment will soon come out dustry minister Nirmala

ing to requests of start-ups Act—which regulates the im-

seekingalegalframeworkfor port, manufacturing, distrib-

salves, on behalf of the NGO, said the companies have very often borrowed from banks by mortgaging these lands

Senior counsel Colin Gon- the Rajva Sabha that as high as 40% of the total land acguired for SEZ across 20 states of the country remains unutilised up to March 13, and have raised more than 2015. "In a written reply to a

According to SEZ Farmers Protection Welfare Associations, between 2010 and 2015 several state governments had notified a total of 4842.38 hectare of land as SEZ land, and out of that companies have utilised only 362.25 hectare for SEZs

₹6.000 crore. Even a CAG report in 2014 found that of the 50 SEZs that were approved for the state, only 15 are operational, six have been denotified and as many as 29 are still to start commercial activities, he said.

ther told the bench that the government has admitted in

Clarifications on online sale of medicines soon: Nirmala

Off-line chemist stores

have also raised concerns

about the quality of drugs

have hit some start-ups. Pha-

pharma market place

Zigy.com has trimmed opera-

tions substantially following

court cases brought by offline

The Department of Industri-

al Policy and Promotion

sions with certain financial

sector regulators like the IR-

DAI and the PFRDA on allow-

ing insurance companies

like LIC as well as pension

funds to invest in start-ups,

DIPP secretary Ramesh Ab-

chemists and druggists.

DIPP in talks on

start-up funding

E-pharmacy players, in (DIPP) has initiated discus-

Already, the uncertainties

neesh Murthy-backed online don't fund start-ups.

sold by online players.

Rajya Sabha question, Nirmala Sitharaman, minister of state for commerce and industry(IndependentCharge) had provided figures on the unutilised land in various states. She said that in four states—Nagaland, Manipur, The senior counsel fur- Goa and Jharkhand — 100% of the SEZ land acquired re-

mains unutilised, while in

The DIPP move follows

comments by various start-

ups that while large insur-

ance firms invest mainly in

risky assets like stocks, they

The DIPP has convened a

meeting on February 2 of

SIDBI, venture capitalists,

various incubators and ac-

celerators associated with

after holding a comprehen-

role in boosting the start-up

eco-system. SIDBI manages

the 'fund of funds' of ₹10,000

crore, which was part of the

DIPP calls meeting

of SIDBI, VCs

hishek said.

seven out of 20 states 50% of the total land acquired under SEZ remains unutilised. Some of the states with high ratio of unutilised SEZ lands include Chhattisgarh (78.24%), Haryana (70.69%), Rajasthan (82.31%), Uttar Pradesh (63.24%),, Tamil Nadu (53.08%), Punjab (67.04%),Chandigarh (59.60%)," the petition said.

The PIL further said that more than 77% of notified SEZ land is concentrated in four states-Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu. These states have acquired 35,415 hectare of land out of 45,782 hectare of total land acquired by the 20 states. Besides, the SEZ developers allowed to purchase agriculture lands with the support of local government officials/police in various states, it said.

Modi last year to help start-

ups. The fund is supposed to

invest in Sebi-registered Al-

ternative Investment Funds

which, in turn, will invest in

Sitharaman, some incuba-

tors have pitched for ade-

The DIPP has sought the ap-

proval of the expenditure fi-

nance ministry for setting up

₹2,000-crore fund, a part of

the corpus meant for the fund

of funds, will provide up to

80% risk cover for collateral-

quate tax incentives

DIPP for credit

guarantee fund

In the meeting with

start-ups.

start-ups, Sitharaman said nance committee of the fi-

sive meeting devoted to only a credit guarantee fund, Ab-

incubators that play a major hishek said. The proposed

package announced by free credit being given by

Prime Minister Narendra banks to start-ups.

SC may stay proceedings in HCs on pharma cos' pleas against FDC ban

fe Bureau

New Delhi, Jan 9: The Supreme Court on Monday hinted at staying proceedings in various high courts on petitions filed by pharmaceutical companies challenging the government's ban on hundreds of fixed dose combinations (FDCs)

A bench led by justice Dipak Mishra asked solicitor general Ranjit Kumar to clarify the government's

stand on whether it intends to file appeal against the December 1 judgment of the Delhi High Court that quashed a central government order banning 344 fixed dose combinations of drugs. It posted the matter

for hearing on January 30. It asked Kumar to apprise the court of the next date of hearing as to whether the government is planning to file an appeal before the division bench of the Delhi High Court or the SC in view of

the single judge of the HC quashing its decision.

While the government had filed a petition seeking transfer of all the cases against its ban to the apex court, the Delhi HC's single judge in the meantime pronounced its order setting aside the decision to ban FD Cs on the lack of mandatory consultations with the Drug Testing Advisory Board and the Drug Consultative Committee, statutory requirements under Section 26A.

MINDA INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L74899DL1992PLC050333)

Registered Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 Corporate Office: Village Nawada Fatehpur, P.O. Sikandarpur Badda, Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) -122004

Website: www.mindagroup.com E-mail: hcdhamija@mindagroup.com Tel.: +91 11 2737 4444, +91 124 2290 427/28 Fax: +91 124 2290676/95



Results of Postal Ballot Voting

Notice is hereby given that pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions (if any) to the shareholders and all other concerned entities/ authorities that the Company has conducted Postal Ballot (including e-voting), for passing Special Resolution(s).

Based on the Scrutinizer's Report dated 7 January, 2017, issued by Mr. Sanjay Grover of M/s. Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries in Practice, the results of the Postal Ballot was declared on 9 January, 2017 at 3:30 pm at the registered office of the company as follows:

S.No	Brief particulars of Special Resolution(s)	Total valid Votes	No. of Votes & %age of total votes cast in favour		No. of Votes & %age of total votes cast against	
			No. of Votes	%age of Votes	No. of Votes	%age of Votes
1	Special Resolution under Section 180(1) (a) read with section 110, Section 188 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, for Consent of the members to hive off, sell, transfer, assign or otherwise dispose off the Battery Division of the Company to its wholly owned subsidiary, Minda Storage Batteries Private Limited.	6,54,17,391	6,54,13,888	99.9946	3,503	0.0054
2	Special Resolution under Section 23, 42, 62 (1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, to issue, offer and allot securities of an aggregate amount upto Rs. 500 Crores by way of a Public or Private Placement.	6,54,17,391	6,53,91,261	99.9601	26,130	0.0399

Therefore, the above resolution(s), as set out in the Notice dated 10 November, 2016 have been passed with requisite

The Results of Postal Ballot has been displayed on the Notice Board of the Company, communicated to the Stock Exchanges and have also been uploaded on the website of the Company www.mindagroup.com alongwith the Scrutinizer's Report.

> By order of the Board of Minda Industries Limited

> > **ADVERTORIAL**

Place: Delhi Date: 09 January, 2017

GOVERNMENT OF GUJARAT

H.C. Dhamija Vice President - Group Accounts,

Legal, Secretarial, Indirect Taxes & Company Secretary

Shri Narendra Modi Prime Minister of India

10-13 Jan Connecting India to the World 8" Global Summit

global summit

JANUARY 2017

Mahatma Mandir, Gandhinagar, Gujarat.

companies participating in the trade show

Industries Ltd., L&T, State Bank of India,

Apollo Hospital, Axis Bank, Suzlon,

Essar, Shell Hazira LNG Pvt. Ltd.,

UNICEF, Aditya Birla and Bombay Stock

This day will also open the five-week long

Nobel Prize Series Exhibition at Gujarat

Science City, by Shri Narendra Modi,

Hon'ble Prime Minister of India in the

presence of 9 Nobel Laureates, Shri Vijay

Rupani, Chief Minister of Gujarat and

other invitees. The Nobel Prize Series

Exhibition which will run for 5 weeks and

will observe a series of events including

MAJOR COMPANIES PARTICIPATING

IN THE GLOBAL TRADE SHOW

Maruti Suzuki India Ltd.

. Reliance Industries Ltd.

. Shell Hazira LNG Pvt. Ltd.

Bombay Stock Exchange

State Bank of India

Apollo Hospital

UNICEF

·L&T

Exchange among many others.

are Maruti Suzuki India Ltd., Reliance



Chief Minister, Gujarat

"Day 0" - Events & Happenings

The stage is set and the cameras are all ready to roll on 9th January - 'Day 0' of Vibrant Gujarat Global Summit 2017.

The stage is set and the cameras are all contribution by Government of Gujarat ready to roll on 'Day 0' of Vibrant Gujarat and 26% equity contribution by the Indian Global Summit 2017, Today, Shri Railway Station Development Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister will lay the foundation stone and do Bhoomi Poojan at Gandhinagar Railway Station and mark the beginning of its



Gandhinagar Railway Station with a 300-room hotel

redevelopment. Gandhinagar, the state capital and also the center point for all key worldwide exhibitions in Gujarat will soon be remodeled into a state-of-the-art, hi-tech railway station.

The Gandhinagar Railway Station Integrated Development Company Limited (GRSIDCL), a wholly owned Government company, has been appointed as the nodal agency that will make this dream project of the Hon'ble Prime minister come alive. They are a leading Central Public Sector Undertaking (CPSU) known for their building expertise and latest technology. The Gandhinagar Railway Station Integrated Development Company Limited (GRSIDCL) will have 74% equity

Corporation Limited (IRSDCL).

Their main focus will be to redevelop Gandhinagar Railway Station and construct a 300-room hotel as part of the Railway Station and also connect it to the Mahatma Mandir and Exhibition Center at Helipad Ground. The approximate cost of the combined project is estimated to be INR 254 Crore.

This project will also fulfill a long pending demand of a quality hotel in Gandhinagar area that will cater to the needs of business leaders, tourists and corporates who visit the state capital for work as well as during global conventions like Vibrant Gujarat.

Later in the evening, Shri Narendra Modi, the Hon'ble Prime Minister will inaugurate the Global Trade Show at 1700 hrs, a platform to enable delegates to connect with one another. It will allow experts from different industries and organizations, sharing similar business interest, a chance to network and stay connected not throughout the summit but even after that, true to our theme of "Connecting India to the world."

The Trade Show at the Exhibition Ground in Gandhinagar will be open to delegates from the 09th to 13th January 2017 and it will be the country's largest exhibition spread across a massive area of 1.25lakh sq. mt. This mega exhibition will be housed in 14 domes and will have

exhibitors participating from across the globe and over more than 25 sectors.

The Vibrant Gujarat Global Trade Show will be covering sectors as varied as Automobile & Auto Component, Aero Space & Defence, Biotechnology, Agro & Food Processing, Chemicals &



Automobile & Auto Components Aerospace & Defence

Biotechnology

Agro & Food Processing Chemicals & Petrochemicals

Electronics

Oil & Gas Power & Renewable Energy

. 1.25 Lakh Sq. Mt. Exhibition Area

2 Million + Visitors Expected

 14 Domes 25 + Business Sectors

Best in Class Infrastructure

Petrochemicals, Electronics, Oil & Gas, Power & Renewable Energy and Tourism amongst many others. As has been the practice in the past,

special incentives will once again be

given to MSMEs and women

entrepreneurs participating in the Global

Trade show. Some of the major

 Aditya Birla Suzion Essar

seminars for school children, college students, young entrepreneurs and researchers. As a special attraction to the event, science based movies will be showcased at IMAX in Science City, Ahmedabad on different themes like sky. space, science, ocean, etc.



A constellation of Scientists will grace the event with their presence



Dr. Richard Roberts Nobel Prize in Physiology /Medicine (1993) Discovery of split genes




Dr. Ada Yonath Nobel Prize in Chemistry (2009) Pioneering work on the structure of the ribosome



Nobel Prize in Physics (2012)Ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems

Dr. Serge Haroche



Ramakrishnan Nobel Prize in Chemistry (2009) Studies on the structure and function of the ribosome



Nobel Prize in Physics (2004) Discovery of asymptotic freedom in the theory of the strong interaction

Dr. David Gross



Dr. Harold Varmus Nobel Prize in Physiology /Medicine (1989) Discovery of the cellular origin of retroviral oncogenes

Dr. Randy Schekman

Nobel Prize in Physiology/

Medicine (2013)

vesicle traffic

Groundbreaking work

on machinery regulating



Nobel Prize in Chemistry (2014) Development of super-resolved fluorescence microscopy

Dr. William E. Moerner



Dr. Hartmut Michel Nobel Prize in Chemistry (1988) For the determination of the three-dimensional structure of a photosynthetic reaction centre



खबर कोना



केटीजेड लंदन फैशन वीक मेंस एडब्लू 17 शो के दौरान डिजाइन पेश करता एक मॉडल।

'हिलेरी अब नहीं लड़ेंगी दोबारा कोई चुनाव'

वाशिंगटन, ९ जनवरी (भाषा)।

नवंबर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से हार का सामना करने वाली हिलेरी क्लिंटन दोबारा कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी।

भारतीय मूल की उनकी सहयोगी नीरा टंडन ने पूर्व विदेश मंत्री की ओर से न्यूयार्क के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने

के संदर्भ में ये बातें कहीं। टंडन ने सीएनएन से कहा 'मुझे लगता है कि वे बच्चों और परिवारों पर ध्यान देंगी। मुझे नहीं लगता कि अब वे कभी कोई चुनाव लड़ेंगी।'पूर्व विदेश मंत्री की करीबी एवं डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े एक थिक-टैंक, सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष नीरा ने यह बयान न्यूयॉर्कटाइम्स के उस लेख पर प्रतिक्रिया में दिया जिसमें कहा गया था कि हिलेरी क्लिंटन न्यूयॉर्क के मौजूदा मेयर बिल डी बलासियो के

खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं।

सरकार ने सोमवार को कहा कि यातायात

सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन

नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के

प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन)विधेयक

को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने

गडकरी ने सोमवार को यहां कहा कि जैसे ही

संयुक्त संसदीय समिति से यह विधेयक प्राप्त

होगा सरकार इसे संसद में पेश करने का प्रयास

करेगी। मोटर वाहन (संशोधन)विधेयक संसद

की संयुक्त संसदीय समिति के पास है। मुझे

उम्मीद है कि जैसे ही यह विधेयक हमें प्राप्त

होगा, हम इसे संसद के आगामी सत्र में पेश

शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में

बोल रहे थे। मोटर वाहन (संशोधन)विधेयक

गडकरी यहां सड़क सुरक्षा सप्ताह की

नई दिल्ली, 9 जनवरी (भाषा)

के पूरे प्रयास किए जाएंगे।

करने का प्रयास करेंगे।

मिस्र में आतंकी हमले में नौ पुलिसकर्मियों की मौत

काहिरा, ९ जनवरी (भाषा)।

मिस्र के अशांत प्रदेश उत्तरी सिनाई में आतंकवादी संगठन आइएस से जुड़े एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरा कचरा उठाने वाले ट्रक से एक सुरक्षा चौकी को टक्कर मार दी।

हमले में नौ पुलिसकर्मी मारे गए हैं और हैं। 14 अन्य घायल हुए हैं।अल-आरिश शहर के अल-मसीद जिलें में यह हमला सिनाई के एक उग्रवादी संगठन अंसार बैत अल-मकदस के सदस्यों ने किया है।

इस संगठन ने 2014 में आइएस के प्रति अपनी वफादारी जताई थी। हमलावरों ने चेकपोस्ट को विस्फोटक भरे ट्रक से टक्कर मारने के बाद गोलियां भी बरसाईं। हालांकि,

अभी तक किसी समृह ने विस्फोटक से भरा ट्रक ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली सुरक्षा चौकी को मारी है। आतंकवादियों ने कचरा ढोने वाले ट्रक का प्रयोग टक्कर, हमले में 14 किया। लोग घायल हो गए

यह ट्रक अल-आरिश नगर निगम से चोरी हो गया था। पुलिस ने बताया कि घायल हुए 14 लोगों में चार नागरिक भी

खबरों के मुताबिक, आशंका है कि जहां विस्फोट हुआ है उसके आसपास रहने वाले असैन्य नागरिक भी इसमें मारे गए होंगे, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को सत्ता से हटाने के लिए 2011 में शुरू हुए आंदोलन के बाद से मिस्र के उत्तरी सिनाई में आतंकी हमले बढ गए हैं।

बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण : अमेरिका, उत्तर कोरिया ने एक दूसरे को चेताया

प्योंगयांग, ९ जनवरी (एपी)।

एक ओर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने की मिसाइल को गिरा सकता है। तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया एक नई परिपूर्ण अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की बात कर रहा है।

वाशिंगटन के अधिकारियों का कहना है रहे हैं। कि अगर प्योंगयांग ऐसा कोई भी प्रक्षेपण करेगा जो अमेरिका के इलाके या इसके सहयोगियों के लिए खतरा बन सकता है तो इसे नीचे गिरा दिया जाएगा। उत्तर कोरिया ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि निकट भविष्य जोंग उन ने नए साल पर अपने संबोधन में में ही वह आइसीबीएम का परीक्षण करेगा। कहा था कि उनका देश आइसीबीएम के

इसकी वजह अमेरिका की उस नीति को माना जा सकता है जिसके तहत वह अपने क्षेत्र के लिए खतरा समझी जाने वाली किसी भी

प्योंगयांग और वाशिंगटन के एक दूसरे के प्रति रूख को देख कर ऐसा लगता है कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति के तौर पर टुंप की ताजपोशी से पहले दोनों एक दूसरे को परख

आइसीबीएम का सफल प्रक्षेपण उत्तर कोरिया के लिए जहां एक बडा कदम होगा वहीं यह वाशिंगटन और उसके सहयोगियों के लिए गंभीर चिंता का विषय भी होगा। किम

छह महीने पूरे, थेरेजा मे पर पड़ा बेग्जिट का साया

लंदन, ९ जनवरी (एएफपी)।

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेजा मे ने छह महीने पहले जब पदभार संभाला था तब उनको काफी सराहा गया था. लेकिन अब ब्रेग्जिट को लेकर उनकी ओर से कोई फैसला नहीं किए जाने की स्थिति को लेकर अब उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के भविष्य को लेकर बातचीत के लिए विस्तृत रणनीति बनाने से थेरेजा के इनकार की वजह से सभी पक्षों के नेताओं के बीच यह संदेह पैदा हो गया है कि प्रधानमंत्री के पास कोई विस्तृत योजना नहीं है। मे ने बीते साल 13 जुलाई को सत्ता

मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में पेश

कर दिया जाएगा: गडकरी

2016 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर

कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें

शराब पीकर गाडी चलाने पर 10 हजार रुपए

और हिट-एंड-रन मामले में दो लाख रुपए तक

सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में

का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।

इस विधेयक में 10 लाख रुपए तक मुआवजा

देने का प्रावधान है। विधेयक में तेज गति से

गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपए तक का

जुर्माना रखा गया है जबिक बिना बीमा के गाड़ी

चलाने के मामले में 2,000 रुपए का जुर्माना

और तीन माह की सजा का प्रावधान है। हेलमेट

पहने बिना दोपहिया चलाने पर 2,000 रुपए

और तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त करने का

प्रावधान किया गया है। किशोर अथवा नाबालिग

द्वारा वाहन चलाते हए कोई अपराध होने पर

अभिभावक को भी शामिल करने का इसमें

प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में वाहन का

पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है। संसद

के तत्काल बाद बने हालात के बीच उन्हें ब्रिटेन का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया था। धीरे-धीरे उनकी आलोचना होने लगी। पूर्व उप प्रधानमंत्री निक क्लेग कहते हैं. 'मैंने उनमें कल्पनाशीलता. लचीलापन या नजरिया नहीं देखा जो एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए।' प्रधानमंत्री मे ने रविवार को एक अखबार में लेख के माध्यम से एकीकृत समाज के अपने नजरिये को फिर से पेश करते हुए वादा किया कि उनकी सरकार समाज के हर स्तर पर वास्तविक सामाजिक सुधार को लागू करेगी। हालांकि उन्होंने किसी नीति का जिक्र नहीं किया।

का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है।

सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत के लिए यहां

इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम में गडकरी के

अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति

राजु, गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर भी

साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होतीं हैं जिनमें

करीब डेढ लाख लोग अकस्मात ही मौत के मुंह

में समा जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण

है कि इस साल सड़क दुर्घटनाओं में 4.6 फीसद

वृद्धि हुई है जबिक इन्हें कम होना चाहिये।

उन्होंने कहा- हर मिनट एक दुर्घटना होती है।

और हरेक चार मिनट में एक मौत हो जाती है।

राजमार्ग मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ड्राइविंग स्कुल

खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार देशभर में

कुशल यातायात प्रणाली लाने की योजना बना

सडक परिवहन मंत्री ने कहा कि देश में हर

उपस्थित थे।

संभलाते हुए स्थिरता का वादा किया था। ब्रेग्जिट

मध्यप्रदेश पर्यटन निगम ने तैयार की पर्यटक डायरी

भोपाल, ९ जनवरी(भाषा)।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की जानकारी देने वाली छोटी आकर्षक डायरी तैयार की है। यह डायरी राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर पर केंद्रित है। इनमें पर्यटकों की दिलचस्पी के शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी संकलित की गई है।

आधिकारिक तौर पर सोमवार को यहां बताया गया कि निगम की तरफ से पर्यटकों की दिलचस्पी वाले भोपाल शहर के प्रमुख स्थानों की फोटो सहित जानकारी वाला 'भोपाल इन ४८ ऑवर्स' शीर्षक से पॉकेट साइज फोल्डर प्रकाशित किया गया है।

इसमें बताया गया है कि केवल 48 घंटे में भी भोपाल में बहुत सारी जगह घूमकर बहुत कुछ देखा जा सकता है। उन्होंने बताया इसी प्रकार के पॉकेट फोल्डर प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर, संस्कारधानी जबलपुर व ऐतिहासिक नगर ग्वालियर को केंद्रित कर तैयार किए गए हैं।

कमजोर मांग से

नई दिल्ली, 9 जनवरी (भाषा)।

विदेशी बाजारों में बहुमूल्य किलो रह गई।

ट्रंप के शपथग्रहण में टूटेगी सालों पुरानी परंपरा

वाशिंगटन, ९ जनवरी (भाषा)।

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम से उस दिग्गज उद्घोषक को अलग कर दिया है जो बीते 60 सालों से अपनी बुलंद आवाज से अमेरिकी राष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण समारोह की शान बढाते रहे हैं।

चार्ली ब्रोटमैन 1957 से अब तक के हर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उद्घोषक की भूमिका निभाते आ रहे थे। उन्होंने पहली बार ड्वाइट डी एसेनहोवर के शपथ ग्रहण में अपनी आवाज दी थी। ब्रोटमैन 89 साल के हो चके हैं और वे अब तक 11 राष्ट्रपतियों के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य उद्घोषक शामिल रहे। वे वाशिंगटन सीनेटर्स बेसबॉल टीम की आवाज के तौर पर भी पहचान रखते हैं। उन्होंने 20 जनवरी को देश के 45वें राष्ट्रपति की परेड की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थीं, लेकिन यह जानकर बहुत धक्का लगा कि उनको इस साल यह भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया। ब्रोटमैन ने कहा, 'मैं 60 सालों से यह करता आ रहा था। मैं टूट चुका हूं।' इस बार स्टीव रे उद्घोषक की भूमिका में होंगे।



जापान में 20 साल की आयु पूरी करने वाली युवतियां सोमवार को एक समारोह में सेल्फी लेतीं हुईं।

ताइवान की राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी सीनेटर

वाशिंगटन, ९ जनवरी (एएफपी)।

अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज ने चीनी राजनियकों की आपत्तियों के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात की।

टेड क्रूज ने कहा कि दोनों ने

हथियारों की बिक्री, द्विपक्षीय और बढ़ने से टेक्सास के किसानों, आर्थिक संबंधों को लेकर फार्म लगानेवालों और छोटे बातचीत की।

क्रज ने कहा, 'दोनों देशों के जाना प्राथमिकता होनी चाहिए। मुलाकात की।

ह्यूस्टन में हुई बैठक के दौरान ताइवान के बाजारों तक पहुंच व्यापारियों को फायदा होगा।

चीन के विरोध के बावजूद बीच आर्थिक सहयोग को बढाया क्रज ने ताइवान की राष्ट्रपति से

दक्षिण कोरिया से विवाद, वापस लौटे जापान के राजदूत

तोक्यो, ९ जनवरी (एएफपी)।

दक्षिण कोरिया में जापान के वाणिज्य दतावास के बाहर कम्फर्ट वुमन की प्रतिमा लगाए जाने के विरोध में जापान के राजदूत वापस तोक्यो लौट

तनाव की शुरुआत शुक्रवार को हुई जब तोक्यों ने कहा कि वह पिछले महीने बुसान में अपने वाणिज्य दुतावास के बाहर लगाई गई 'कम्फर्ट वुमन' की प्रतिमा के खिलाफ अपने राजदत को वापस बुला लेगा।

'कम्फर्ट वुमन' की प्रतिमा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को जापानी सेना के लिए वेश्यालयों में काम करने के लिए मजबर किए जाने के प्रतीक के रूप में लगाई गई थी।

जापान का तर्क है दक्षिण कोरिया का यह कदम साल 2015 में दोनों देशों के बीच हए समझौते के खिलाफ है जिसमें इस मुद्दे को समाप्त करने पर

सहमति बनी थी।

कंपनी सूबना श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिग्स लि० यंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110 001

CIN: L29112DL1963PLC004084 PAN: AAACS0229G कोन 011 23315941 फैक्स 011 23311203

E-Mail:spr.exports@shrirampistons.com

Website: www.shrirampistons.com एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि विनिमय 47 भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सचिवद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण) विनिमय, 2015 के अनुसरण में कन्पनी वे निदेशकों के मंडल की बेठक शनिवार दिनांक 04 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में होगी. जिसमें दिसम्बर 2016 को समाप्त अवधि के अनअंकेक्षित विलीय परिणामों पर विवार व पारित किया जायेगा। उक्त सूचना कम्पनी की उपरोक्त देवसाईट से भी प्राप्त की जा सकती है।

(आर. श्रीनिवासन) : मार्च विल्ली कंपनी सचिव विगान : 06.01.2017 F-4034

BEED /-

इलाहाबाद बैक 🛕 ALLAHABAD BANK प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सभाष रोड, कोलकाता - 700001

सचना प्रौद्योगिको विभाग, प्रधान कार्यालय

निविदा सुचना का परिशिष्ट-। आरएफपी सं. सं. प्रका/डीआईटी/एचडब्ल्य/एसओसी/2016-17/43 दिनांक : 08.12.2016

बोली हेत निर्धारित समय में विस्तार शीर्षांकित आरएफपी में एक परिशिष्ट के माध्यम से इलाहाबाद बैंक हेतु एसओसी के

कार्यान्वयन के निर्धारित समय में संशोधन जारी किया जाता है। बोली प्रस्तुतीकरण की तिथि 30-जनवरी-2017 तक बढ़ाई गई है। कृपया विवरण हेतु बैंक की आधिकारिक वेबसाइट : www.allahabadbank.in एवं

ई-टेंडर वेबसाइट : www.tenderwizard.com/abbank देखें। मुख्य प्रबंधक (स.प्री.)

> ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड नर्ड दिल्ली

निविदा आमंत्रण हेत् सूचना

निगमित सामग्री प्रबंधन, ओएनजोसी, दिल्ली नीचे दिए गए ब्यौरी के अनुसार ई-बोलियाँ

निविदा सं.: जेडएनडीजेसी17001। संक्षिप्त विवरण: वर्ष 2017-18 के लिए टीसीआर विटस की खरीद। समय/सुपूर्दगी अवधि: निविदा दस्तावेज के अनुसार। निविदा शुल्क: ₹ 60,000.00। निविदा प्रलेखों की बिक्री की अवधि से: 10.01.2017, 1400 वर्ज (भारतीय मानक समय), तक 31.01.2017, 1400 वर्ज (भारतीय मानक समय)। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली बंद होने/खलने

निविदा के अन्य विवरणों के लिए, मुद्धि पत्र (वर्दि कोई हो) सहित, कृमवा www.tenders.ongc.co.in और www.etender.ongc.co.in (ई-बोली के लिये) पर लॉगऑन करें।

को तिथि और समय: 31.01.2017 को 1400 वने तक (भारतीय मानक समय)/31.01.2017

णज्यिक बोली बंद होने/खुलने की तिथि/समय बढ़ाने का निर्णय ले सकता है, जिसकी सुचना ऊपर डॉल्लिख विसाइट में दे दी जाएगी। इस संबंध में अद्यतन सचना के लिए बोलीदाताओं को ओएनजीसी को निविदा वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहना चाहिए। नये चिक्रताओं (वेंडरों) को यह सुनिश्चित करना वाहिए कि बोली बंद करने की तारीख से कम से कम 5 कार्यदिवसों में सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वेंडर कोड संख्या जारी करने के लिए ओएनजीसी से संपर्क करें।

सोने-चांदी में नरमी

धातुओं में मजबूती के रुख के बावजूद आभूषण विक्रेताओं की कमजोर मांग से राष्ट्रीय राजधानी सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 40 रुपए गिरकर 28,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं का उठान कमजोर पडने से चांदी भी 50 रुपए की गिरावट के साथ 40,400 रुपए

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) पंजीकृत कार्यालयः बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

सीआईएन सं. -L40101DL1989GOI038121

निविदा आमंत्रण सूचना का विस्तार संदर्भः एनईएसएच / सीएसएम / एनआईटी / 15 / एक्सटेशन-2 दिनांकः 05.01.2017

(मूल एनआईटी सं.: एनईएसएच/सीएसएम/एनआईटी/15 दिनांक 16.10.2016) पावरसिंह निम्नलिखित पैकेजों के लिए ई--पोर्टल <u>https://pgcileps.buyjunction.in</u> के माध्यम से ऑनलाइन बोली आमंत्रित करता है

पैकेज ब्यौरा/स्थान दस्तावंज साफ्ट प्रति/हार्ड प्रति डाउनलोड करना/बोली भाग की बोली प्रस्तृति दस्तावेज की कीमत की अंतिम तारीख ओएंडएम के अंतर्गत ±800 केवी एचवीडीसी ट्रांसमिशन 17.01.2017 तक: 24.01.2017 जिला: सोनितपुर, लाइन के टॉवर लोकेशन 118 में पाइल फाउंडेशन [11:00 बजे (आईएसटी)] ₹ 5,000.00 अन्य सभी नियम व शर्ते मूल एनआईटी के अनुसार वही रहेगी। कृपया पावरग्रिड वेबसाइट https://www.powergridindia.com और ई-प्रापण पोर्टल https://pgcileps.buyjunction.in देखें। फोन: 0364-2537316।

पावरग्रिड – स्मार्ट ट्रांसिमशन समाधान प्रदाता

MINDA INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L74899DL1992PLC050333) Registered Office: B-64/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052

Corporate Office: Village Nawada Fatehpur, P.O. Sikandarpur Badda, Near IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) -122004 Website: www.mindagroup.com E-mail: hcdhamija@mindagroup.com Tel.: +91 11 2737 4444, +91 124 2290 427/28 Fax: +91 124 2290676/95



पाणराध्या

Results of Postal Ballot Voting

Notice is hereby given that pursuant to section 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions (if any) to the shareholders and all other concerned entities/ authorities that the Company has conducted Postal Ballot (including e-voting), for passing Special Resolution(s),

Based on the Scrutinizer's Report dated 7 January, 2017, issued by Mr. Sanjay Grover of M/s. Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries in Practice, the results of the Postal Ballot was declared on 9 January, 2017 at 3.30 pm at the registered office of the company as follows:-

S.No	Brief particulars of Special Resolution(s)	Total valid Votes	No. of Votes & %age of total votes cast in favour		No. of Votes & %age of total votes cast against	
			No. of Votes	%age of Votes	No. of Votes	%age of Votes
1	Special Resolution under Section 180(1) (a) read with section 110, Section 188 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, for Consent of the members to hive off, sell, transfer, assign or otherwise dispose off the Battery Division of the Company to its wholly owned subsidiary, Minda Storage Batteries Private Limited.	6,54,17,391	6,54,13,888	99.9946	3,503	0.0054
2	Special Resolution under Section 23, 42, 62 (1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, to issue, offer and allot securities of an aggregate amount upto Rs. 500 Crores by way of a Public or Private Placement.	6,54,17,391	6,53,91,261	99.9601	26,130	0.0399

Therefore, the above resolution(s), as set out in the Notice dated 10 November, 2016 have been passed with requisite

The Results of Postal Ballot has been displayed on the Notice Board of the Company, communicated to the Stock Exchanges and have also been uploaded on the website of the Company www.mindagroup.com alongwith the Scrutinizer's Report.

> By order of the Board of Minda Industries Limited

H.C. Dhamija

Place: Delhi Vice President - Group Accounts, Legal, Secretarial, Indirect Taxes & Company Secretary Date: 09 January, 2017

स्टार्टअप में तेजी से बढ़ रहा है राजस्थान: वस्ंधरा

जयपुर, ९ जनवरी(भाषा)।

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को यहां जेनपैक्ट में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद समाराह को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप में पहले बेंगलूरू का नाम आता था लेकिन अब तेजी से जयपुर का नाम इससे जुड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसमें ओर तेजी आएगी। स्टार्टअप के लिए सरकार इनक्यूबेटर सेंटर (स्टार्टअप की शुरूआती तैयारियों का केंद्र) को बढावा दे रही है जिससे स्टार्टअप को गति मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राथमिकता सकता है। से इनक्यूबेटर केंद्रों को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। युवाओं की सोच और उनकी ताकत राज्य को आगे बढाता है हम इसी ओर काम कर रहे है। कार्यक्रम को सिस्को कम्पनी के कार्यकारी चेयरमैन जान थामस ने संबोधित करते हुए राजस्थान की

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा स्टार्टअप और स्मार्ट सुविधाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की तारीफ की। जेनपैक्ट में स्थापित वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र में स्मार्ट सुविधाओं का डाटा उपलब्ध होगा।

कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि सिस्को के अनुसार राज्य मार्ग दर्शक के रूप में आगे बढ सकता है। सिस्को ने मार्गदर्शकों की एक सूची बनाई है। इसमें दुनिया में ऐसे छह शहर हैं जिसके साथ सिस्कों ने साझेदारी की है। सिस्को ने जयपुर को चुना है, क्योंकि वो समझता है कि जो काम हम लोगों ने किया है वो आगे चलकर हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के लिए मार्गदर्शक बन

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाईफाई, हॉट स्पॉट और कनेक्टिविटी एक साथ होने से स्मार्ट सिटी बन सकती है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के चार शहरों को मदद करने के लिए कहा है। जब 18 महीने में इतनी प्रगति हो सकती है, तो आने वाले समय में स्मार्ट सिटी भी बन जाएगी।

मप्र के मंदसौर में बनेगा फूड पार्क

भोपाल, ९ जनवरी (भाषा)।

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की दलोदा तहसील में 500 करोड़ रुपए की लागत वाले मेगा फुड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी है।

प्रदेश के लिए यह एक अहम उपलब्धि है, जो किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होगी।

आधिकारिक तौर पर सोमवार को यहां दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में मेगा फुड पार्क को मंजुरी प्रदान की है, जिनमें मध्यप्रदेश एक है। इस फूड पार्क की स्थापना का काम मेसर्स चेतक इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाएगा।

इसमें करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस परियोजना में डाबर, झण्डू, फार्मास्यटिकल्स और पतंजलि जैसी बड़ी कंपनियों को भी जोडा जाएगा। इस पार्क के स्थापित होने से मालवा अंचल के किसानों के साथ ही प्रदेश की सीमा से लगे राजस्थान के जिले के किसान भी लाभांवित होंगे।